



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 939 राँची, गुरुवार,

31 अक्टूबर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

23 अक्टूबर, 2019

संख्या:- 8/आरोप-11/2019 का. 8551-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजीव रंजन सिंह, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग सम्प्रति-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची के विरुद्ध श्री मतियस विजय टोप्पो, तत्कालीन एस०ए०आर० पदाधिकारी, राँची से सम्बन्धित माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या- WP(S) No.-1753/2016 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-31.08.2017 को पारित आदेश में प्रधान सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को श्री टोप्पो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही निष्पादित करने हेतु 01 माह का समय दिया गया था अन्यथा श्री टोप्पो का निलम्बन आदेश निरस्त हो जाने का आदेश था, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव श्री सिंह द्वारा संचिका में उपस्थापित नहीं किया गया, जिससे न्यायालय के आदेश की अवमानना के साथ-साथ विभाग की छवि धूमिल हुई।

2. उक्त के सम्बन्ध में श्री सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध प्रशासी विभाग द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गौरी शंकर मिंज, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
